

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जून 24 2019

जामिया की छात्र ने माओं के लिए बच्चों की देखभाल का अनूठा स्टार्ट-अप शुरू किया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्र इशिता सिंह ने “मातृत्व: द फाउंडेशन ऑफ़ लाइफ एंड नेशन” नाम से मां बनने वाली महिलाओं के लिए एक ऐसा अनूठा स्टार्ट-अप शुरू किया है जिससे खुद की देखभाल, शिशु की देखभाल, स्तनपान और शिशु आहार के बारे में शिक्षित किया जा सकेगा।

आन्ट्रप्रनर्शिप, इनोवेशन और डिज़ाइन थिंकिंग से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही और इस स्टार्ट अप की सह संस्थापक, इशिता के मुताबिक बच्चे और मां की सेहत के शुरूआती दिन बहुत मुश्किल होते हैं। हमारा मकसद, माताओं को शिक्षित करके सेहतमंद बचपन को बढ़ावा देना है।

इशिता के माता पिता चिकित्सक हैं और उनकी मां, डा आशा चैहान इस स्टार्ट अप की सह संस्थापक हैं। जामिया छात्रा ने कहा, माओं और भविष्य में बनने वाली माओं को इस नयी ज़िन्दगी की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। इस स्टार्ट अप से उन्हें महसूस होगा कि नयी शुरू होने वाले ज़िन्दगी के इस अनजाने और नए मोड़ पर वे अकेली नहीं हैं।

“मातृत्व” एक ऐसा स्टार्ट अप है जो माताओं को मातृत्व से जुड़ी सारी जानकारियां ऑफ़लाइन क्लास और प्रैक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन के ज़रिए समझाएगा। इस प्रोग्राम से बच्चों के डाक्टरों की अनुभवी टीम भी जुड़ेगी। माओं को भावनात्मक सहयोग के साथ शिशु पालन की सारे गुर सिखाए जाएंगे।

इस प्रोग्राम के पांच चरण होंगे। जिनमें नवजात की देखभाल, स्वास्थ्य जांच, एचआईवी, एनीमिया, एसटीआई, स्व-देखभाल, आहार, टीकाकरण, और स्वास्थ्य मापदंडो:बीएमआई: को ध्यान में रखा गया है।

इशिता ने कहा कि भारत में यह अकेला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिशु के स्वस्थ विकास के सभी आयामों को शामिल किया गया है।

उनके मुताबिक, एनएसआरसीईएल आईआईएम, बेंगलूरू ने परामर्श सत्र के लिए इस कार्यक्रम को अपनाया है।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक